

राजपुरा में एक्साइज विभाग ने 200 पेटी नकली शराब पकड़ी

Publish Date:Thu, 01 Aug 2019 12:34 AM (IST)



सस्ती शराब लेने के चक्कर में नकली शराब लेकर लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर लेते हैं।

जागरण संवाददाता, पटियाला : सस्ती शराब लेने के चक्कर में नकली शराब लेकर लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला यहां राजपुरा के नजदीक अमरजीत एनक्लेव में सामने आया है। एक्साइज विभाग की टीम ने बुधवार को बिकका सिंह नाम के व्यक्ति के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान विभागीय टीम ने नकली शराब की 200 पेटियां बरामद की। एक्साइज विभाग ने यह छापेमारी बुधवार को शाम करीब पांच बजे की। उसके बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नकली लेबल व नकली होलोग्राम

एक्साइज विभाग ने राजपुरा के अमरजीत एनक्लेव में की छापेमारी के दौरान बरामद की गई शराब नकली पाई गई। यही नहीं, बरामद की शराब की बोतलों पर नकली लेबल ओर नकली होलोग्राम तक लगाए गए थे। जानकारी के अनुसार टीम ने जो नकली शराब की पेटियां बरामद की गईं, लेकिन एनवी डिस्टलरी का लेबल लगाया गया था। बताया जा रहा है कि जिस घर में टीम ने छापेमारी की वह राजपुरा की अनाज मंडी के नजदीक अमरजीत एनक्लेव में स्थित है और वह पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा था। बिकका नाम का व्यक्ति, जिसका यह घर बताया जा रहा है, वह साइकिल रिपेयर का काम करता है। अब एक्साइज विभाग द्वारा घर के मालिक से यह पूछताछ की जानी है कि उसने किस व्यक्ति को यह घर किराये पर दिया था। इसके बाद व्यक्ति के खिलाफ अगली कार्रवाई की जाएगी। रेड के मौके पर इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ढोंडसा, इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह और इंस्पेक्टर दलजीत सिंह भी मौजूद रहे।

लोगों को ठेके से ही शराब लेने की विभाग की अपील

एक्साइज विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों को अपील की जा रही है कि वह ठेके से ही शराब लेकर पीएं। ईटीओ उपकार सिंह ने कहा कि सस्ती शराब लेने के चक्कर में लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर लेते हैं। विभाग की तरफ से लोगों को अपील है कि वह सस्ती शराब लेने के चक्कर में न पड़ें क्योंकि नकली शराब सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ईटीओ ने कहा कि छापेमारी के दौरान दो गाड़ियों को कब्जे में लिया गया है। बाकी मकान मालिक से पूछताछ की जाएगी। ताकि अगली कार्रवाई हो सके।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/punjab/patiala-excise-department-recover-200-box-wine-19451377.html>